



**SSC CGL 2017**  
COMBO PACK

120 TOTAL TESTS  
**₹787/-**



# Important Current Affairs 19th August 2017 in Hindi with PDF

Here's the Hindi version of Important Current Affairs 19th August 2017. Now stay updates about important news and current affairs for SSC, IBPS and more bank & online government exams, in Hindi too! You can also download the Important Current Affairs 19th August 2017 in Hindi as PDF and save for revision!

## Important Current Affairs 19th August 2017 in Hindi

### 1. RBI करेगा 50 रुपए के नए नोट जारी

- भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही महात्मा गांधी श्रृंखला में 50 रुपए के नोट जारी करेगा, जिसमें राज्यपाल उर्जित आर. पटेल के हस्ताक्षर होंगे।
- नए नोट का आधार रंग फ्लोरोसेंट नीला है और पीछे रथ के साथ हंपी की आकृति है, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है।
- इस नोट में दोनों ओर ज्यामितीय पैटर्न समग्र रंग योजना के साथ संरेखित हैं।

### 2. नविका सागर परिक्रमा

- नाविका सागर परिक्रमा, एक परियोजना है जिसमें भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों की एक टीम, एक भारतीय निर्मित पाल नाव INSV तारिणी पर विश्व-जलयाना करेगी। यह 17 सितंबर से शुरू होगा।
- यह एक अखिल भारतीय महिला समूह द्वारा दुनिया की पहली भारतीय विश्व-जलयाना है।





**IBPS PO 2017**

PRELIMS TEST PACK

25 FULL TESTS

**₹293/-**

**testbook**

- इसका उद्देश्य देश में महिला सशक्तिकरण और भारतीय नौसेना द्वारा नौकायन को बढ़ावा देना है।

### 3. जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के 10 अरब \$ खर्च

- कृषि मंत्रालय के अनुसार, मौसम की चरम घटनाओं में हर वर्ष 9 से 10 अरब डॉलर खर्च हो रहे हैं।
- जलवायु परिवर्तन के कारण 2100 तक कृषि उत्पादकता 10 से 40 प्रतिशत घट सकती है।
- कृषि मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि जब तक कि देश और उसके किसान जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का अनुकूलन नहीं कर लेते, भारत तिलहन, दाल और दूध का आयातक बन सकता है।

### 4. गोवा सरकार ने की जैव-इंधन से चलने वाली बसों की शुरुआत

- गोवा सरकार ने पायलट आधार पर 3 जैव-इंधन संचालित बसों की शुरुआत की है।
- परियोजना हाल ही के बजट में घोषित राज्य सरकार की व्यापक गतिशीलता योजना का हिस्सा है।
- बस को एक सरकारी निकाय, कदंबा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KTCL) द्वारा संचालित किया जाएगा।
- टिकट, स्वचालित प्रणाली के माध्यम से बुक किया जाएगा, बस में स्वाइपिंग मशीन होंगी जिसमें यात्री कार्ड स्वाइप करने के बाद बस में प्रवेश कर सकते हैं।

### 5. भारत, अमेरिका द्विपक्षीय संबंध का नया स्तर

- भारत और अमेरिका दोनों पक्षों के रक्षा और विदेशी मंत्रियों के नए स्थापित "2 + 2" प्रारूप की पहली बैठक का निर्धारण कर रहे हैं।



**SSC CGL 2017**

COMBO PACK

120 TOTAL TESTS  
**₹787/-**

 testbook

- प्रधान मंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच बातचीत के दौरान नई उच्च स्तरीय वार्ता तंत्र की पुष्टि हुई।
- यह नया उच्च स्तरीय तंत्र सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता के अतिरिक्त होगा जो दोनों देशों के बीच एक वार्षिक आयोजन है।

#### 6. अंतरिक्ष यात्रियों को संचार में सहायता के लिए उपग्रह

- नासा ने उपग्रहों की एक श्रृंखला में नवीनतम उपग्रह लॉन्च किया है जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के साथ संवाद कर सकते हैं।
- बोइंग-निर्मित ट्रेकिंग और डाटा रिले उपग्रह को कैप कैनावेरल, फ्लोरिडा से अंतरिक्ष भेजा गया।
- यह नासा के लो-अर्थ ऑर्बिट संचालन के लिए अंतरिक्ष-से-भूमि-संचार की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह 2020 के मध्य में गंभीर अंतरिक्ष संचार का समर्थन करेगा।

#### 7. विश्व फोटोग्राफी दिवस

- 19 अगस्त को हर वर्ष विश्वभर के फोटोग्राफरों को एक फोटो साझा करने के लिए प्रेरित करने के लक्ष्य से 'विश्व फोटोग्राफी दिवस' मनाया जाता है।
- पहला विश्व फोटो दिवस 2010 में मनाया गया जिसमें 250 फोटो भेजे गए और उन्हें 20,000 लोगों तक पहुँचाया गया।
- फेसबुक आंकड़ों के अनुसार, भारत FB पर फोटो पोस्ट करने वाले शीर्ष दस देशों में चौथे स्थान पर है, और इसी श्रेणी में मैसेंजर ऐप के लिए 5वें स्थान पर है।

#### 8. पावर ग्रिड ने किया ADB के साथ करार



**IBPS PO 2017**

PRELIMS TEST PACK

25 FULL TESTS

**₹293/-**

**testbook**

- पावर ग्रिड ने अपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन \$ की राशि के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ऋण समझौते में प्रवेश किया है।
- ऋण का उपयोग, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (पार्ट डी) के वित्तपोषण के लिए किया जायेगा।
- पावर ग्रिड एक भारतीय राज्य की स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है जो भारत में संचरण नेटवर्क पर उत्पन्न होने वाली कुल बिजली का लगभग 50% स्थान्तरित करती है।

#### 9. भारत के लिए रूस के नए दूत

- कैरियर राजनयिक निकोले कुदाशेव को भारत के लिए नए रूसी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
- भारत के पिछले रूसी राजदूत, अलेक्जेंडर कडाकिन की मौत के लगभग 7 महीने बाद कुदाशेव की नियुक्ति हुई है।
- दक्षिण पूर्व एशिया के एक विशेषज्ञ कुदाशेव, वर्तमान में रूस के विदेश मामलों के मंत्रालय के उप महानिदेशक सचिवालय हैं।

#### 10. विश्व मानवतावादी दिवस

- हर वर्ष, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, मानव श्रमिक सेवा में अपने जीवन को खतरे में डालने वाले लोगों और दुनिया भर में संकटों से प्रभावित लोगों की सहायता करने वाले श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है।
- पहले WHD के लिए प्रेरणा 1 अगस्त 2003 को बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुए एक आतंकवादी हमले में 22 लोगों के मारे जाने के बाद मिली।
- इस वर्ष के विश्व मानवतावादी दिवस की विषयवस्तु #NotATarget है।

#### 11. द्रोणाचार्य-उम्मीदवार की सूची से सरकार ने एक को हटाया



**SSC CGL 2017**

COMBO PACK

120 TOTAL TESTS  
**₹787/-**

 testbook

- खेल मंत्रालय ने इस वर्ष के द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं की सूची से पैरा स्पोर्ट्स कोच सत्यनारायण को हटा दिया है।
- ऐसा उनके खिलाफ लंबित एक आपराधिक मामले के कारण किया गया।
- सत्यनारायण ने रियो पैरालिंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता मारीयप्पन थांगवेलू को प्रशिक्षित किया है।
- 'द्रोणाचार्य पुरस्कार' युवा खेल और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक खेल कोचिंग सम्मान है।

### 12. भारतीय एथलीटों ने 37 पदक जीते

- टोरंटो, कनाडा में आयोजित 'वर्ल्ड इवार्फ गेम्स' की भारतीय टीम ने 37 पदक जीते हैं।
- भारतीय पक्ष ने 15 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदक जीतकर टूर्नामेंट में शीर्ष 10 में आकर विश्व को चौंका दिया।
- जोबी मैथ्यू ने भारत के लिए सबसे अधिक, दो स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य पदक अर्जित किये।

### 13. एक्सिस बैंक देगा होम लोन पर 12 EMI की छूट

- 'शुभ आरम्भ होम लोन' नामक नई योजना के अंतर्गत 30 लाख तक के ऋण के नियमित पुनर्भुगतान पर एक्सिस बैंक 12 EMI माफ कर देगा।
- एक्सिस ने 'शुभ आराम होम लोन' शुरू किया है, जिसमें 12 EMI की छूट दी गयी है - पहले वितरण की तारीख से चौथे, 8वें और 12वें वर्ष प्रत्येक के बाद 4 EMI।
- यह ऋण, निर्माणरत / तैयार / पुनर्विक्रय घर, स्व-निर्माण और प्लॉट और निर्माण आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है।

### 14. सरकार ने बाल देखभाल भत्ता को किया दोगुना



**IBPS PO 2017**

PRELIMS TEST PACK

25 FULL TESTS

**₹293/-**

**testbook**

- केंद्र सरकार ने विकलांग महिला कर्मचारियों के लिए बाल देखभाल भत्ता दोगुना कर 3000 रूपए प्रति माह कर दिया है।
- अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए विकलांग महिला कर्मचारियों को प्रति माह 1500 रूपये का भत्ता दिया जाता है।
- भत्ता बढ़ाने का निर्णय 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
- भत्ता, बच्चे के जन्म के समय से 2 वर्ष की आयु तक देय होगा।

#### 15. स्टीव बैनन व्हाइट हाउस से निष्काशित

- 7 माह के एक अशांत कार्यकाल के बाद डोनाल्ड ट्रम्प के मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन ने व्हाइट हाउस छोड़ दिया।
- पिछले वर्ष ट्रम्प की निर्वाचन जीत में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह हाल ही के हफ्तों में ट्रम्प प्रशासन को छोड़ने वाले तीसरे हाई प्रोफाइल व्हाइट हाउस अधिकारी हैं।
- उन्होंने ट्रम्प के कैम्पेन CEO बनने से पहले, एक निर्माता, वित्तीय दलाल और ब्रिजबार्ट नेटवर्क के प्रमुख के रूप में हॉलीवुड के कैरियर को बरकरार रखा था।

#### 16. भारत, जापान ने लिया संबंधों को बढ़ावा देने का संकल्प

- नई दिल्ली में आयोजित 'दूसरे जापान-भारत साइबर वार्ता' में घरेलू साइबर नीति परिदृश्य, साइबर खतरों और शमन पर चर्चा हुई।
- भारत और जापान ने साइबरस्पेस के क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत करने का प्रण किया और आर्थिक विकास और नवीनता को सक्षम करने के लिए, खुले, सुरक्षित और सुलभ साइबर स्पेस के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- दोनों पक्ष, 2018 में टोक्यो में अगले जापान-भारत साइबर वार्ता को आयोजित करने पर सहमत हुए।



**SSC CGL 2017**

COMBO PACK

120 TOTAL TESTS  
**₹787/-**

 testbook

### 17. रिलायंस डिफेंस का बदलेगा नाम

- रिलायंस इंफ्रा द्वारा नियंत्रित रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग का नाम बदलकर 'रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड' कर रहा है।
- नाम बदलने का मुख्य कारण, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए निर्माण क्षमता पर कंपनी का ध्यान केन्द्रित करना है।
- रिलायंस समूह ने 2016 में पिपावाव डिफेन्स एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग में एक नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल कर ली, इसके बाद कंपनी का नाम रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग रख दिया गया था।

### 18. ई-कॉमर्स हब में पहला साइबर कोर्ट

- ऑनलाइन विवादों के मध्य, चीन ने हांगजो के ई-कॉमर्स हब में इंटरनेट संबंधित मामलों को संभालने के लिए अपना पहला साइबर कोर्ट लॉन्च किया है।
- 'हांगजो इंटरनेट कोर्ट' का काम ऑनलाइन व्यापार विवादों और कॉपीराइट मुकदमों जैसे मामलों को संभालना होगा।
- अदालत द्वारा नियंत्रित मामलों की सुनवाई ऑनलाइन की जाएगी, वादी और बचाव पक्ष अपने घर पर बैठ के और बहुत कम कीमत पर मामले की सुनवाई करवा सकते हैं।

### 19. 1970 के बाद से पहले तमिल नौसेना प्रमुख

- श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना ने 45 वर्ष पहले एक अलगाववादी युद्ध शुरू होने के बाद से पहली बार नौसेना का नेतृत्व करने के लिए एक तमिल अल्पसंख्यक अधिकारी को नियुक्त किया है।
- रियर-एडमिरल ट्रेविस सिन्निया, 1970 के बाद से सेना के एक दल का नेतृत्व करने वाले पहले तमिल हैं।



**IBPS PO 2017**

PRELIMS TEST PACK

25 FULL TESTS

**₹293/-**

**testbook**

- उन्होंने गृहयुद्ध के चरम के दौरान गहरे समुद्र में LTTE युद्धपोतों के विनाश में निर्णायक भूमिका निभाई।

#### 20. ICICI बैंक ने ब्याज दर में की कटौती

- ICICI बैंक ने 50 लाख रुपये से कम जमा राशि के बचत खाते पर ब्याज दर को 50 आधार अंकों से घटाकर 3.5% करने की घोषणा की है।
- 50 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि वाले बचत बैंक खातों पर ब्याज दर 4% पर अपरिवर्तित है।
- HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक सहित कई अन्य ऋणदाताओं ने भी बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों में संशोधन किया है।

Attempt Daily Important Current Affairs Quizzes for yesterday and today here:

[Attempt Current Affair Quiz for 19th August 2017](#)

[Attempt Current Affair Quiz for 18th August 2017](#)

